



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31 पटना, बुधवार, 13 श्रावण, 1932 (श०)  
4 अगस्त 2010 (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-12	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 13-14	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 15-16
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 17-20

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 जुलाई 2010

एस0ओ0 147 दिनांक 4 अगस्त 2010—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53,1952) की धारा-10 की उप-धारा (बी0) एवं (एफ0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री कुमार रण विजय सिंह, नोटरी, जहानाबाद जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 710/जे0, दिनांक 9 मार्च 1987 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित करते हैं।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-08/85/3158/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

22 जुलाई 2010

एस0ओ0 148-एस0ओ0 147 दिनांक 4 अगस्त 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-08/85/3158/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

22nd July 2010

S. O. 147 dated 4th August 2010 —In exercise of the powers conferred under Sub-Section (b) and (f) of Section 10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary licence with effect from the date of issue of the order and to remove the name of Sri Kumar Ran Vijay Singh, Notary, Jehanabad, who was appointed as notary under Law Department's Notification memo no.710J, dated 9th March 1987 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now

(File No.-A/A.B -08/85/3158/J.)

By Order of the Governor of Bihar,  
MAZHAR IMAM,

Secretary of Incharge to Government of Bihar.

21 जुलाई 2010

एस0ओ0 149 दिनांक 4 अगस्त 2010—विधि विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3324/जे0, दिनांक 7 सितम्बर 2000 के आलोक में अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विधि आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा पर विचारोपरान्त निम्नांकित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है:-

क्रमांक	नाम	पता
1	श्री केदार नाथ पोद्दार	सेवा-निवृत्त प्राचार्य पटना, विधि महाविद्यालय, कस्तुरबा नगर, बाजार समिति के निकट, पो0-महेन्द्र, पटना-800006
2	डा0 उमाशंकर प्रसाद वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय	5, पाटलिपुत्र कोलोनी, पटना-800013
3	डा0 अंशुमन, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय	द्वारिका मंदिर रोड, पश्चिम बोरिंग केनाल रोड, पो0-जी0पी0ओ0, पटना- 800009

2. अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति विधि आयोग के वर्तमान कार्याविधि (7 सितम्बर 2009 से अगले तीन वर्ष) तक सीमित रहेगा तथा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3. अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा-भत्ता देय होगा।

4. अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000 (एक हजार) रुपया मानदेय देय होगा।

5. उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट शीर्ष-2014-ब्याज प्रशासन लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय उपशीर्ष-0006-विधि आयोग के अन्तर्गत-0501-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये अदायगियों इकाई से होगा। जिसका विपत्र कोड एन-2014808000006 है।

इसका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना होंगे।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-02/07/3144/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मजहर इमाम, विशेष सचिव।

20 जुलाई 2010

एस0ओ0 150 दिनांक 4 अगस्त 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2913/जे0, दिनांक 15 जून 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामाशंकर प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15 जून 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि	अर्हता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रामाशंकर प्रसाद	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा	15-06-04	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	नालन्दा जिला	

(सं0सं0-ए/नोट(एस)-84/2002/3120/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

20 जुलाई 2010

एस0ओ0 151-एस0ओ0 150 दिनांक 4 अगस्त 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए/नोट(एस)-84/2002/3120/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

20th July 2010

S. O. 150 dated 4th August 2010 —In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rama Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2913/J. Dated 15th June 2004 to practice as notary again for the next five years from 15th June 2009.

Name of Notary	Residential/ Professional address	Date of which the name of Notary has been entered in the Register	Qualification	Area in which Notary to practice.	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rama Shankar Prasad	Advocate, Civil Court, Biharsharif	15-06-04	<u>B.Sc.</u> L.L.B.	Nalanda District	

(File no.-A/Not(S)-84/2002/3120/J)

By order of the Governor of Bihar  
RAJENDRA KUMAR MISHRA, *Secretary*.

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2010

सं० प्र०2/मुकदमा-40/2009-10387—सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 17077/2009 में दिनांक 2 फरवरी 2010 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 6/प्र०-24-26/2009-769/लो०से०आ०, दिनांक 23 जून 2010 द्वारा अनुशंसित पथ निर्माण विभाग, बिहार के बिहार अवर अभियंत्रण सेवा संवर्ग के कनीय अभियंता (असैनिक) श्री शत्रुघ्न प्रसाद पाण्डेय (वरीयता क्रमांक-1677/2003) को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के अधीन पुनरीक्षित पे बैण्ड-2 एवं ग्रेड-पे 5400 रुपये में आदेय भत्तो के साथ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से औपबंधिक रूप से प्रोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रोन्नति का वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप-सचिव (प्र०को०),

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

4 अप्रैल 2010

संख्या 12/प0 (क0) 1008/2010 का0-3033—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप उप-सचिव/समकक्ष स्तर (वेतनमान् रु0 10,000—15,200 अ0 पु0) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद पर पदस्थापन हेतु संबंधित विभाग में अगले आदेश तक सेवाएँ सौंपी जाती हैं :-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री राजेन्द्र चौधरी, (307/08, जहानाबाद)	अनुमंडल पदा0, शेरघाटी, गया	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
2	श्री राधेश्याम साह, (556/08, भागलपुर)	अनुमंडल पदा0, फुलपरास, मधुबनी।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, (563/08, मुजफ्फरपुर)	अनुमंडल पदा0, रोसड़ा, समस्तीपुर।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
4	श्री मो0 मुस्लिम, (569/08, सिवान)	अनुमंडल पदा0, बखरी, बेगूसराय।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
5	श्री भानु प्रताप सिंह, (582 'ए' /08, यू0पी0)	अनुमंडल पदा0, बक्सर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
6	श्री पारस नाथ सिंह, (613/08, सिवान)	अनुमंडल पदा0, पीरो, भोजपुर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
7	श्री कुमार अरुण प्रकाश, (615/08, पटना)	अनुमंडल पदा0, बलिया, बेगूसराय।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
8	श्री रामेश्वर सिंह, (625/08, प0 चम्पारण)	अनुमंडल पदा0, किशनगंज	जिला पंचायत राज पदा0 के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में।
9	श्री विनोद कुमार सिंह, (628/08, प0 चम्पारण)	अनुमंडल पदा0, शेखपुरा	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
10	श्री रविकान्त तिवारी, (631/08, खगड़िया)	अनुमंडल पदा0, तारापुर, मुंगेर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
11	श्री अशोक कुमार सुमन, (632/08, भागलपुर)	अनुमंडल पदा0, बेगूसराय	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
12	श्री प्रदीप कुमार, (652/08, सारण)	अनुमंडल पदा०, पालीगंज, पटना।	जिला पंचायत राज पदा० के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में।
13	श्रीमती मधुरानी ठाकुर (654/08, दरभंगा)	अनुमंडल पदा०, अररिया	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
14	श्रीमती रंजना कुमारी, (656/08, भोजपुर)	अनुमंडल पदा०, अररिया, पूर्वी चंपारण।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
15	श्री एनामुलहक सिद्धिकी, (680/08, पूर्वी चंपारण)	अनुमंडल पदा०, मुंगेर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
16	श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी, (689/08, दरभंगा)	अनुमंडल पदा०, गोगरी, खगड़िया	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
17	श्री हरेन्द्र नाथ दूबे, (690/08, बक्सर)	अनुमंडल पदा०, टेकारी, गया	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
18	श्री अजय कुमार ठाकुर, (695/08, खगड़िया)	अनुमंडल पदा०, धमदाहा, पूर्णियाँ	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
19	श्री राजीव रंजन सिंह, (705/08, समस्तीपुर)	अनुमंडल पदा०, शिवहर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
20	श्री संजय प्रियदर्शी, (718/08, जहानाबाद)	अनुमंडल पदा०, बनमनखी, पूर्णियाँ	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
21	श्री रामअनुग्रह नारायण सिंह, (725/08, पटना)	अनुमंडल पदा०, बिक्रमगंज, रोहतास।	जिला आपूर्ति पदा० के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
22	श्री रामरूप प्रसाद, (733/08, मुंगेर)	अनुमंडल पदा०, राजगीर, नालंदा।	जिला परिवहन पदा० के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में।
23	श्री अवध किशोर प्रसाद, (741/08, भागलपुर)	अनुमंडल पदा०, नीमचकबथानी, गया।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
24	श्री विनोदानंद झा, (759/08, सीतामढ़ी)	अनुमंडल पदा०, हवेलीखड़गपुर, मुंगेर	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
25	श्री राकेश मोहन, (767/08, दरभंगा)	अनुमंडल पदा०, मंझौल, बेगुसराय	महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
26	श्री अमरेन्द्र कुमार, (798/08, नालंदा)	अनुमंडल पदा०, बाढ़, पटना	जिला परिवहन पदा० के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग में।
27	श्री सर्वनारायण यादव, (839/08, समस्तीपुर)	अनुमंडल पदा०, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण।	जिला पंचायत राज पदा० के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में।
28	श्री मनोज कुमार, (928/08, भोजपुर)	अनुमंडल पदा०, जमुई	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
29	श्री मृत्युंजय कुमार, (1028/08, अररिया)	अनुमंडल पदा०, बारसोई, कटिहार	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।
30	श्री रंजीत कुमार, (1046/08, नवादा)	अनुमंडल पदा०, महाराजगंज, सिवान।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में।

2. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए सेवा सौंपे गये विभाग में अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अतुल कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

4 अप्रील 2010

संख्या 12/प० (क०) 1008/2010 का०—3034—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप उप—सचिव/समकक्ष स्तर (वेतनमान रु० 10,000—15,200 अ० पु०) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ—4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :—

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री भरत झा, (530/08, मधुबनी,)	अनुमंडल पदा०, सीतामढ़ी सदर	उप सचिव, जल संसाधन विभाग।
2	श्री उदय कुमार, (538/08, पटना)	अनुमंडल पदा०, समस्तीपुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा।
3	श्री देव नारायण मंडल, (540/08, कटिहार)	अनुमंडल पदा०, मसौढ़ी, पटना	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर।
4	श्री ब्रजमोहन पाण्डेय, (545/08, गया)	अनुमंडल पदा०, रजौली, नवादा	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
5	श्री संजय कुमार, (551/08, पटना)	अनुमंडल पदा०, लखीसराय	उप सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
6	मो० नौसाद युसूफ, (555/08, नालन्दा)	अनुमंडल पदा०, पटना	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना।
7	श्री नील कमल, (558/08, पूर्णियाँ)	अनुमंडल पदा०, सुपौल	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
8	श्री सांवर भारती, (567/08, बेगूसराय)	अनुमंडल पदा०, छपरा	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अरवल।
9	श्री मदन प्रसाद, (576/08, भोजपुर)	अनुमंडल पदा०, अरवल	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर।
10	डा० उमाशंकर मंडल, (599/08, भागलपुर)	अनुमंडल पदा०, हाजीपुर, वैशाली	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय।
11	श्री शाहनवाज खॉं, (601/08, सारण)	अनुमंडल पदा०, महनार, वैशाली	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
12	श्री कुमार विजयेन्द्र प्रसाद, (610/08, नालन्दा)	अनुमंडल पदा०, भभुआ, कैमूर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।
13	श्री ज्ञान शंकर दास, (614/08, दरभंगा)	अनुमंडल पदा०, भागलपुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली।
14	श्री रघुनन्दन झा, (617/08, पूर्णियाँ)	अनुमंडल पदा०, बेनीपुर, दरभंगा।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाँका।
15	श्री हेमन्त नाथ देव, (624/08, पूर्वी चंपारण)	अनुमंडल पदा०, हथुआ, गोपालगंज।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा।
16	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, (640/08, रोहतास)	अनुमंडल पदा०, सोनपुर, सारण	उप सचिव, वित्त विभाग।
17	श्री जगदीश प्रसाद सिंह, (642/08, मधुबनी)	अनुमंडल पदा०, डुमराँव, बक्सर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल।
18	श्री जयनाथ महतो, (645/08, लखीसराय)	अनुमंडल पदा०, बिहारशरीफ, नालंदा।	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर।



क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
19	श्री राजकुमार, (650/08, पूर्णियाँ)	अनुमंडल पदा०, फारबिसगंज, अररिया।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज।
20	श्री विजय कुमार, (655/08, नालन्दा)	अनुमंडल पदा०, गया सदर	उप सचिव, कृषि विभाग।
21	श्री एनामुल हक, (671/08, पटना)	अनुमंडल पदा०, बगहा, प० चम्पारण	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज।
22	श्री लक्ष्मण भक्त, (673/08, वैशाली)	अनुमंडल पदा०, जगदीशपुर, भोजपुर।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया।
23	श्री अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, (677/08, पटना)	अनुमंडल पदा०, चकिया, पूर्वी चम्पारण।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेतिया, प० चम्पारण।
24	श्री कपिलदेव महतो, (679/08, बेगूसराय)	अनुमंडल पदा०, नवगछिया, भागलपुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा।
25	श्री अरशद अजीज, (688/08, शेखपुरा)	अनुमंडल पदा०, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण	उप सचिव, विधि विभाग।
26	श्री विजय कुमार, (691/08, मधेपुरा)	अनुमंडल पदा०, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण)	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया।
27	श्री मो० मोबिन अली अंसारी, (693/08, गुमला)	अनुमंडल पदा०, डेहरी, रोहतास	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर।
28	श्री ऋषिकेश शर्मा, (702/08, मुजफ्फरपुर)	अनुमंडल पदा०, कटिहार	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।
29	श्री संजीव सिंह, (709/08, यू०पी०)	अनुमंडल पदा०, दाउदनगर, औरंगाबाद।	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिवहर।
30	डॉ० राजीव कुमार, (711/08, मुंगेर)	अनुमंडल पदा०, पटनासिटी	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
31	श्री वजैनउद्दीन अंसारी, (728/08, रोहतास)	अनुमंडल पदा०, मढ़ौरा, सारण	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी।
32	श्री मो० कासिम अंसारी, (729/08, गोपालगंज)	अनुमंडल पदा०, वायसी, पूर्णियाँ	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
33	श्री दिलीप कुमार, (730 / 08, पटना)	अनुमंडल पदा०, निर्मली, सुपौल	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद।
34	श्री रंगनाथ चौधरी, (749 / 08, दरभंगा)	अनुमंडल पदा०, झंझारपुर, मधुबनी।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी।
35	श्री कृत्यानंद सिंह, (758 / 08, मधेपुरा)	अनुमंडल पदा०, बिरौल, दरभंगा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।
36	श्री जिउत सिंह, (760 / 08, रोहतास)	अनुमंडल पदा०, हिलसा, नालंदा	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा।
37	श्री अरशद अली, (775 / 08, भोजपुर)	अनुमंडल पदा०, महुआ, वैशाली	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा।
38	श्री श्याम किशोर, (776 / 08, वैशाली)	अनुमंडल पदा०, दलसिंहसराय, समस्तीपुर।	उप सचिव, पर्यटन विभाग।
39	डा० जवाहर लाल सिन्हा, (781 / 08, मधुबनी)	अनुमंडल पदा०, मुजफ्फरपुर, पूर्वी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर।
40	श्री अमरनाथ साहा, (785 / 08, मुजफ्फरपुर)	अनुमंडल पदा०, सिवान	उप सचिव, ऊर्जा विभाग।
41	श्री कंचन कपूर, (799 / 08, नालंदा)	अनुमंडल पदा०, मुजफ्फरपुर, पश्चिम।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, छपरा, सारण।
42	श्री पंकज कुमार, (805 / 08, मुंगेर)	अनुमंडल पदा०, सासाराम, रोहतास।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर, भभुआ।
43	श्री इम्तियाज अहमद करीमी, (806 / 08, मुजफ्फरपुर)	अनुमंडल पदा०, पुपरी, सीतामढ़ी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार।
44	श्री एस० एम० कैसर सुल्तान, (809 / 08, नालंदा)	अनुमंडल पदा०, मोहनियां, कैमूर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद।
45	डॉ० रवीन्द्र नाथ, (821 / 08, सीतामढ़ी)	अनुमंडल पदा०, बेनीपट्टी, मधुबनी।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान।
46	श्री मो० अफजालुर रहमान, (827 / 08, नालंदा)	अनुमंडल पदा०, जहानाबाद	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगुसराय।
47	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, (831 / 08, अररिया)	अनुमंडल पदा०, त्रिवेणीगंज, सुपौल।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
48	श्री रमेश कुमार झा, (834 / 08, मधुबनी)	अनुमंडल पदा०, बेलसंड, सीतामढ़ी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ।
49	श्री दिनेश कुमार राय, (840 / 08, रोहतास)	अनुमंडल पदा०, नरकटियागंज, प० चम्पारण।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर।
50	श्री अवधेश राम, (874 / 08, उ०प्र०)	अनुमंडल पदा०, नवादा सदर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा।
51	श्री जवाहर प्रसाद, (876 / 08, रोहतास)	अनुमंडल पदा०, जयनगर, मधुबनी।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया।
52	श्री विश्वनाथ चौधरी, (927 / 08, पटना)	अनुमंडल पदा०, मधुबनी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई।
53	श्री राजेश कुमार, (930 / 08, पटना)	अनुमंडल पदा०, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिवहर।
54	श्री शशि शेखर चौधरी, (1038 / 08, पटना)	अनुमंडल पदा०, आरा सदर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा।
55	श्री उमाशंकर राम, (1132 / 08, मुजफ्फरपुर)	अनुमंडल पदा०, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मोतिहारी।

2. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अतुल कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचनाएं  
26 जुलाई 2010

सं० 1/ई<sup>1</sup>-606/2005-2135—श्री सुरेश कुमार कानोडिया, जिला अवर निबंधक, बेगूसराय को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 228 के अंतर्गत दिनांक 6 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 2010 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्र शेखर सिंह, उप सचिव।

26 जुलाई 2010

सं० IV/स्था०(रा०)ई<sup>1</sup>-405/2010-2136—श्री सुशील कुमार सुमन, अवर निबंधक, राजगीर, नालन्दा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 228 के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 2010 से 4 अप्रैल 2010 तक 48 (अड़तालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्र शेखर सिंह, उप सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2010

सं० क०/स्था०-26/2001-584—डा० दीपक प्रसाद (भा०प्र०से०) प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर को अध्यक्ष, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के पद पर दिनांक 16 जुलाई 2010 के अपराह्न के प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अशोक कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

निर्वाचन विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

28 मई 2010

सं० 3956—अधोहस्ताक्षरी मैं कुमार अंशुमाली (कोटि क्रमांक-90/08) बि०प्र०से०, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 14/प्र० 104/10-4992, दिनांक 28 मई 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद का स्वतः परित्याग करते हुए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग के रिक्त पद का प्रभार आज दिनांक 28 मई 2010 के पूर्वाह्न में स्वतः ग्रहण करता हूँ।

कुमार अंशुमाली  
भारग्राही पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सोहन कुमार ठाकुर,  
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार  
—सह-अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 20—571+350-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,  
(निबंधन)

अधिसूचना  
24 मई 2010

एस0 ओ0 -II/ई<sup>1</sup>-123/2000-1344—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल ने निर्देश देने की कृपा की है कि कार्यालय खुलने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लिए मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में अस्थाई रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय खोला जाएगा, जिसका क्षेत्राधिकार में तारापुर एवं संग्रामपुर प्रखण्ड होंगे।

2. इसके फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, खड़गपुर का क्षेत्राधिकार खड़गपुर अंचल तक ही सीमित रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी, सचिव,

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना  
26 जुलाई 2010

सं० वि0स0 (समिति)-03/07-1414/एम0—मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) विभाग के पत्रांक 828, दिनांक 26 अगस्त 2006 तथा संसदीय कार्य विभाग के संकल्प संख्या 700, दिनांक 11 अक्टूबर 1985 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत, विभागीय अधिसूचना, संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा पूर्व गठित “विभागीय परामर्शदातृ समिति” को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया जाता है।

क्रमांक	समिति के अध्यक्ष / सदस्य का नाम	पदनाम
1	2	3
1	माननीय मंत्री / माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	श्री राजेश कुमार रौशन उर्फ बबलू माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
3	श्रीमती गुड्डी देवी, माननीय सदस्या, बिहार विधान-सभा	सदस्य
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
5	श्री सुधांशु शेखर भाष्कर, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
6	श्री विजेन्द्र कुमार यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
7	श्री बनवारी राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
8	श्रीमती रेणु सिंह, माननीय सदस्या, बिहार विधान परिषद (निर्दलीय)	सदस्य
9	श्री राम बदन राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद	सदस्य
10	श्री रामचन्द्र पासवान, अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	अपर सचिव

2. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1189 /एम0, दिनांक 17 जून 2010 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । शेष शर्तें यथावत् रहेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रामचन्द्र पासवान, अपर सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 20—571+120-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं  
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT P.M.C.H

TENDER

No. 267—Vide Govt. of Bihar, Health Department letter no 45(1) dated 27.01.2010 the Bihar State Blood Bank, Patna Medical College Hospital, Patna 800 004, Bihar invites sealed tender for disposal of:

1. Human Fresh Frozen Plasma (FFP)
2. Human Cryo-Poor Plasma. (CPP)

Terms and conditions are as follows:

1. NOC from Drugs Controller India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi for collecting excess unused Plasma (FFP & CPP) from licensed blood banks.
2. NOC from Drugs Controller India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi for fractionation of Plasma in India or for exporting for fractionation.
3. Cost of packing, transportation (Cold Chain) to be borne by the purchaser.
4. The company in whose favor the bid will be made should deposit Rs. One lac in the form of demand draft in favor of Bihar State Blood Bank, PMCH, Patna in advance, as guarantee money.
5. A Memorandum of understanding (MOU) to this effect will be signed.
6. The rate will be valid till 31st March 2011.
7. Technical and Financial bid to be submitted in separate envelopes super subscribed "TECHNICAL BID" and "FINANCIAL BID" respectively.
8. Tender should be typed, not hand written. Any cutting should be initialed.
9. Bid will be accepted only by speed post or registered post, and not by courier.
10. Last date for submission is 24th August 2010
11. Bids received after last date will not be considered.
12. Any dispute will be resolved in Patna jurisdiction.

13. Superintendent, Patna Medical College Hospital, Patna may cancel the tender, without any reason.
14. Website [www.prdbihar.org](http://www.prdbihar.org) & [www.pmch.in](http://www.pmch.in) may be visited for details.

Place. Patna  
Date. 17th July 2010

Sd/- Illegible,  
Superintendent.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2010

सं० कौन/भी-115/2010-199—श्री नीरज कुमार, बि०वि०से०, सम्प्रति वाणिज्य—कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्र अंचल, पटना को सर्वश्री राशि पेरिफेरल्स प्रा०लि०, जमाल रोड, पटना के वर्ष 2006—07 का माँग पत्र तालिका में विलम्ब के लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अंचल प्रभारी के प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत उन्हें इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी पाया गया। अतः सरकार के निर्णयानुसार उन्हें निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया है :—

उनका दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दिनांक 1 जुलाई 2010 से रोकी जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

17 जुलाई 2010

सं० 921/स्था०—प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1120 दिनांक 21 अगस्त 2008 द्वारा श्री नवल राम, जनसेवक, सरैया प्रखंड के दिनांक 1 अप्रैल 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना प्रतिवेदित किया गया। इस तरह अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने के संबंध में श्री नवल राम, जनसेवक के द्वारा कोई भी सूचना या आवेदन नहीं दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया के पत्रांक 3008, दिनांक 16 जुलाई 2007 से श्री राम के गृह पता पर भी उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया के प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 970/स्था० दिनांक 30 अगस्त 2008 द्वारा श्री नवल राम, जनसेवक, सरैया प्रखंड को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया एवं श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के विरुद्ध आरोप प्रपत्र “क” में गठित किया गया, जो निम्नवत् है :—

**आरोप संख्या-01**—सरकारी सेवक के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दायित्वों, अधिकारों एवं कार्यों का निष्पादन ईमानदारी एवं दक्षता के साथ निर्धारित नियमों का अनुशरण करते हुए करेंगे। यदि वे निर्धारित पथ से विचलित होते हैं तो इसे कदाचार माना जाता है। श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक भी कदाचारिता का परिचय देते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति के विरुद्ध इनके द्वारा कोई भी सूचना या आवेदन नहीं दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया द्वारा इनके गृह पता से पत्र भेजा गया, जिसमें निदेश दिया गया कि तुरंत अपने कार्य पर उपस्थित हो तथा अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें परन्तु इनके द्वारा पूर्णतः लापारवाही बरतते हुए इस निर्देश का पालन नहीं किया गया है।

**आरोप संख्या-02**—अतः प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन अमर्यादित एवं लापारवाही ढंग से किया है।

**आरोप संख्या-03**—इनका यह आचरण सामान्य सरकारी सेवक से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है।

**आरोप संख्या-04**—सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रशासनिक मर्यादा की सीमा के अन्दर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, ताकि सभ्य असेैनिक प्रशासन कायम रह सके। इसका घोर उल्लंघन इनके द्वारा किया गया है।

**आरोप संख्या-05**—बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहकर जो कार्य किया है, वह इनकी सत्य निष्ठा, विश्वास, कर्तव्य के प्रति समर्पण संबंधी गुणों पर खराब प्रभाव डालता है।

**आरोप संख्या-06**—इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को अप्रभावी रखने का कार्य किया है। स्पष्ट है कि स्वैच्छाचारिता का परिचय देते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2007 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें हैं। जिसके कारण कृषि कार्य एवं जनता का सामान्य कार्य प्रभावित हुआ है। सूचना देने पर भी आप उपस्थित नहीं हुए तथा अनुपस्थिति का कारण बताना भी उचित नहीं समझा। इनका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।

अतः अकर्मण्यता का परिचय देते हुए सरकारी निदेशों के प्रतिकूल आचरण करने, सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन करने, स्वैच्छाचारिता का परिचय देने, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने आदि के संबंध में इनके विरुद्ध विभागीय एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रपत्र “क” के आधार पर ज्ञापांक 1119/स्था0 दिनांक 16 अक्टूबर 2010 से श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 सहायक समाहर्ता-सह-सहायक दण्डाधिकारी (परीक्ष्यमान), मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित कर्मियों के विरुद्ध गठित प्रपत्र “क” के आलोक में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपी एवं उपस्थापन पदाधिकारी को सूचना निर्गत कर साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु निर्धारित तिथि पर उभय पक्ष उपस्थित नहीं हो सके और आसन्न लोक सभा चुनाव, 2009 में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन ससमय नहीं किया जा सका एवं उनके प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय पटना में योगदान देने के कारण विभागीय कार्यवाही का मूल अभिलेख लौटा दिया गया।

पुनः ज्ञापांक 381/स्था0 दिनांक 5 जून 2009 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी के द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों का निर्धारण कर आरोपी कर्मियों को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया, परन्तु आरोपी सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी किसी भी तिथि को उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण ही संचालन पदाधिकारी या किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को दिया गया।

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्य**—आरोपी श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आरोपों के विरुद्ध अपना पक्ष भी नहीं रखा। न तो श्री राम, निलंबित जनसेवक या इनका कोई प्रतिनिधि संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। इस तरह कार्यवाही से इनका रवैया असहयोगात्मक रहा। अभिलेखीय आधार पर संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक 1341 दिनांक 13 नवम्बर 2009 द्वारा संचालन (जाँच) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप सही और प्रमाणित पाया। साथ ही श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के विरुद्ध कर्तव्यहीनता, उदंडता, अनुशासनहीनता तथा सरकारी सेवा के प्रति गैर जबाबदेही के कारण दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

**द्वितीय कारण पृच्छा**—संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए ज्ञापांक 1141/स्था0 दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा आरोपी कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। परन्तु आरोपी कर्मी श्री नवल राम के द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया। पुनः ज्ञापांक 83/स्था0 दिनांक 18 जनवरी 2010 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया एवं उक्त पत्र को श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक को प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया के द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2010 को आरोपी कर्मी को पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन पत्रांक 300 दिनांक 8 फरवरी 2010 द्वारा भेजा गया, परन्तु पत्र प्राप्त करने के बाद भी आरोपी कर्मी श्री नवल राम के द्वारा न उपस्थिति ही दी गई न तो स्पष्टीकरण ही दिया गया।

पुनः ज्ञापांक 190/स्था0 दिनांक 17 फरवरी 2010 एवं 287/स्था0 दिनांक 17 मार्च 2010 से आरोपी कर्मी श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के गृह पता पर भी निबंधित डाक से द्वितीय कारण पृच्छा देने व अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री राम के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के संबंध में हिन्दी सामाचार पत्रों में दिनांक 12 मई 2010 एवं 13 मई 2010 को सूचना प्रकाशित करवायी गई। सूचना प्रकाशन के वावजूद भी आरोपी कर्मी श्री नवल राम न तो उपस्थित हुए न ही अपना स्पष्टीकरण दिया गया और नहीं प्रमाणित आरोपों के विरुद्ध अपना पक्ष रखा।

**निष्कर्ष**—श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के विरुद्ध अपने कार्य से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से दिनांक 1 अप्रैल 2007 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित होता है। साथ ही सरकारी कार्य एवं कार्यालय की मर्यादाओं के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता का अनुसंगी आरोप भी प्रमाणित होता है। आरोपों के विरुद्ध स्पष्टीकरण नहीं देना, विभागीय कार्यवाही में असहयोगात्मक रवैया अपनाना और अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना, द्वितीय कारण पृच्छा का कोई जबाब नहीं देना, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के विरुद्ध भी अपना पक्ष नहीं रखना भी घोर उपेक्षा, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

उपर्युक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रेषित अभिलेख, उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के जाँचोपरान्त श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही सिद्ध होते हैं। श्री राम का आरोप गंभीर आरोप की श्रेणी में आता है और सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने का पर्याप्त/यथेष्ट कारण है। आरोप इतने गंभीर हैं कि वृहत्त दंड नहीं दिया जाता है तो उपरोक्त जघन्य कार्यों, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को रोकना भविष्य में संभव नहीं होगा तथा जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं होगा।

अतः उपर्युक्त आरोपों के प्रमाणित हो जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(X) एवं संशोधित नियमावली-2007 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में मैं, आनन्द किशोर, भा.प्र.से. जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक, सरैया प्रखंड को आदेश निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से आज दिनांक 17 जुलाई 2010 को निर्गत किया गया।

श्री नवल राम से संबंधित ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

- |    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | सरकारी सेवक का नाम              | - | श्री नवल राम  |
| 2. | पिता का नाम                     | - | श्री शिवनन्दन राम                                     |
| 3. | पदनाम                           | - | जनसेवक  |
| 4. | कार्यालय का नाम                 | - | प्रखंड कार्यालय, सरैया                                |
| 5. | जन्मतिथि                        | - | 01-05-1965  |
| 6. | सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि | - | 13-12-1994  |
| 7. | वेतनमान्                        | - | 4000-6000   |
| 8. | स्थायी पता                      | - | ग्राम+पोस्ट-केसरामा, भाया-कुढ़नी,<br>जिला-मुजफ्फरपुर। |

आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट,

जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 20—571+20-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egzette.bih.nic.in>